



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 22.02.2021

1-थाना सै0 24 पुलिस द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर फ्राड कर गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरे करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक ऑटो, विभिन्न बैंको के 70 एटीएम कार्ड ,2 मोबाइल फोन , 2 हजार रुपये आदि बरामद।

दिनांक 22/2/2021 को थाना सै0 24 क्षेत्र के अन्तर्गत ईएसआई अस्पताल के सामने सेक्टर 22 के पास से एटीएम कार्ड बदलकर फ्राड कर गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरे करने वाले 04 अभियुक्त रंजीत साहनी , प्रकाश चौहान, अरुन सिंह तथा जितेन्द्र साहनी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 70 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंको के, 02 मोबाइल फोन VIVO कम्पनी के, 02 हजार रुपये नगद, 06 आधार कार्ड, 05 पेन कार्ड, 02 ड्राईविंग लाईसेन्स तथा 01 आटो बरामद हुये है।

विवरण-

दिनांक 12/2/2021 को थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के रहने वाले वादी मुकदमा श्री सुरेन्द्र सिंह रावत सेक्टर 11 स्थित 01 एटीएम में पैसे निकालने गये थे वहाँ पर अभियुक्तो द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर उन्हे दूसरा एटीएम कार्ड दे दिया था तथा एक अभियुक्त द्वारा सुरेन्द्र सिंह रावत का एटीएम पिन कोड देख लिया था तथा सेक्टर 12 स्थित 01 एटीएम से 20 हजार रुपये निकाल लिये थे चूकि एटीएम से पैसे निकालने की 1 दिन की लिमिट 20 हजार रुपये थी इसलिये इसके बाद अभियुक्तो द्वारा खोडा स्थित एयरनेट कम्यूनिकेशन नामक मोबाइल की दुकान से 02 वीवो कम्पनी के मोबाइल फोन 35 हजार 400 रुपये के एटीएम कार्ड को स्वाइप करके खरीदे थे तथा वहाँ दुकान पर खरीदे हुये मोबाइल फोन को दिखाकर 01 सेल्फी भी ली थी। यह मोबाइल फोन अभि0 प्रकाश चौहान तथा रंजीत साहनी ने अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिये खरीदे थे। अभि0 रंजीत साहनी लाकडाउन मे यूट्यूब पर वीडियो देखकर एटीएम कार्ड बदलना सीखता था। सभी अभियुक्त अनपढ है। अभियुक्त घटना करने के लिये हमेशा 01 आटो मे सवार होकर एटीएम पर पहुँचते थे तथा जिन एटीएम पर गार्ड नही रहता है और जिस एटीएम

पर कोई बुजुर्ग व्यक्ति पैसा निकालने के लिये रहता था उसी एटीएम को विशेष रूप से अपना निशाना बनाते हैं।

अभियुक्तों का विवरण-

- 1.रंजीत साहनी उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र अमेरिका साहनी मूल निवासी ग्राम सिंघा मलाईटोला थाना हरसिद्धी जिला मोतीहारी बिहार हाल पता कनावनी थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद
- 2.प्रकाश चौहान उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र श्यामसुन्दर मूल निवासी वार्ड न0 9 गांधीनगर सोडा फेक्ट्री थाना चचाई जिला सहडौल मध्यप्रदेश हाल पता ग्राम बख्तावापुर सेक्टर 127 थाना एक्सप्रेसवे जिला गौतमबुद्धनगर
- 3.जितेन्द्र साहनी उम्र करीब 31 वर्ष पुत्र जादोलाल साहनी मूल निवासी ग्राम सिंघा मलाईटोला थाना हरसिद्धी जिला मोतीहारी बिहार हाल पता कनावनी थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद
- 4.अरुन सिंह उम्र करीब 42 वर्ष पुत्र पीखत सिंह मूल निवासी ग्राम लधो थाना बिरौल जिला दरभंगा बिहार हाल पता 109 प्रताप बिहार थाना विजयनगर गाजियाबाद

अभियोगों का विवरण -

- 1.मु0अ0सं0 123/21 धारा 420 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना से0 24 नोएडा,गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0सं0 127/21 धारा 414 भादवि थाना से0 24 नोएडा,गौतमबुद्धनगर
- 3.मु0अ0सं0 543/20 धारा 379भादवि थाना से0 39 नोएडा,गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1-70 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंको के
- 2-02 मोबाइल फोन VIVO कम्पनी के
- 3-02 हजार रुपये नगद
- 4-06 आधार कार्ड
- 5-05 पेन कार्ड
- 6-02 ड्राइविंग लाईसेन्स
- 7-01 आटो रजि0न0 डीएल 1एन सीआर 1862



2-थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 96 पव्वे देशी शराब बरामद ।

दिनांक 21.02.2021 को थाना नालेज पार्क पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त कमल पुत्र बाबूराम निवासी शहदरा थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर को मय 96 पौव्वे NV रसभरा संतरा देशी शराब हरियाणा मार्का के ग्राम गढी समस्तीपुर पुस्ता तिराहा थाना नालेज पार्क से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्त का विवरण-

कमल पुत्र बाबूराम निवासी शहदरा थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 54/2021 धारा 60/63 आब0अधिनियम थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

96 पौव्वे NV रसभरा संतरा देशी शराब हरियाणा मार्का